

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य- दिनांक- 04.07.21

थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

चोरी/लूट की योजना बनाते हुये 04 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,

योजना से सम्बन्धित उपकरण व आलानकब बरामद ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन में थाना खुटार की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 04.07.21 की रात्रि को श्री जयशंकर सिंह, थानाध्यक्ष खुटार के कुशल नेतृत्व में थाना खुटार की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01.45 बजे **बण्डा चौराह से तिकुनिया जाने वाले मार्ग पर राज एग्रो हैरो कल्टीवेटर की दुकान के अपोजिट साइड में खाली जगह में स्थित दीवार की आड़ के पास से चोरी/लूट की योजना बना रहे** अभियुक्तगण 1.अकील अहमद पुत्र छोटे बख्श 2. ताज मोहम्मद पुत्र 3. प्रदीप वर्मा पुत्र किशन लाल वर्मा 4. आसिफ पुत्र रियाजुद्दीन को **04 अदद प्लास्टिक की छोटी टार्च, एक काली रंग व 03 लाल रंग की तथा 03 अदद आला नकब** के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खुटार पर **मु0अ0स0 255/2021 धारा 401 भादवि** पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.अकील अहमद पुत्र छोटे बख्श नि0 मो0 नरायनपुर पश्चिमी गढी कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
2. ताज मोहम्मद पुत्र छोटे नि0 मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
3. प्रदीप वर्मा पुत्र किशन लाल वर्मा निवासी रामलीला मैदान मो0 दामोदरपुर थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी
4. आसिफ पुत्र रियाजुद्दीन नि0 मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

- 1.04 अदद प्लास्टिक की छोटी टार्च 01 काली रंग व 03 लाल रंग की
2. 03 अदद आला नकब

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर सामूहिक रूप से बताया गया कि हम लोग एक साथ चोरी या लूट करके मिले माल से जुआ, शराब और मोज मस्ती करते हैं। इस समय हम लोगों के पास पैसे नहीं थे तभी यह कृत्य करने लिये योजना बद्ध थे किन्तु पकड़े गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- श्री जयशंकर सिंह, थानाध्यक्ष खुटार शाह0
- 2- उ0नि0 श्री रामानन्द मिश्रा थाना खुटार शाह0
- 3- काँ0 जरनैल सिंह थाना खुटार शाह0
- 4- का0 मोनी थाना खुटार शाह0